

HINDI

अणुव्रत गीत

रचयिता -

अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी

संयममय जीवन हो।
नैतिकता की सुर-सरिता में जन-जन मन पावन हो।
संयममय जीवन हो॥

अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा।
वर्ण, जाति या सम्प्रदाय से, मुक्त धर्म की भाषा।
छोटे-छोटे संकल्पों से मानस-परिवर्तन हो।
संयममय जीवन हो॥11॥

मैत्री-भाव हमारा सबसे, प्रतिदिन बढ़ता जाए।
समता, सह-अस्तित्व, समन्वय-नीति सफलता पाए।
शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो।
संयममय जीवन हो॥12॥

विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी।
नर हो नारी बने नीतिमय, जीवनचर्या सारी।
कथनी-करनी की समानता में गतिशील चरण हो।
संयममय जीवन हो॥13॥

प्रभु बनकर के ही हम, प्रभु की पूजा कर सकते हैं।
प्रामाणिक बनकर ही, संकट सागर तर सकते हैं।
शौर्य-वीर्य-बलवती अहिंसा ही जीवन-दर्शन हो।
संयममय जीवन हो॥14॥

सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा।
'तुलसी' अणुव्रत-सिंहनाद, सारे जग में प्रसरेगा।
मानवीय आचार-संहिता में अर्पित तन-मन हो।
संयममय जीवन हो॥15॥

(लय : चैत्य पुरुष जग जाए)

ENGLISH
ANUVRAT GEET
Lyrics - Acharya Shri Tulsi

Sanyam may jeevan ho.
naitikata kee sur-sarita mein jan-jan man paavan ho.
sanyam may jeevan ho.....

apane se apana anushaasan anuvrat kee paribhaasha
varn, jaati ya sampradaay se mukt dharm kee bhaasha.
chhote-chhote sankalpon se maanas parivartan ho
sanyam may jeevan ho. | 1 |

maitree bhaav hamaara sabase pratidin badhata jae.
samata, sah-astiy, samanvay-neeti saphalata pae.
shuddh saadhy ke lie niyojit maatr shuddh saadhan ho.
sanyam may jeevan ho. | 2 |

vidyaarthee ya shikshak ho majadoor aur vyapaaree.
nar ho naaree bane neetimay jeevan-charya saaree.
kathanee-karanee kee samaanata mein gatisheel charan ho
sanyam may jeevan ho. | 3 |

prabhu ban kar ke hee ham prabhu kee pooja kar sakate hain.
praamaanik bankar hee sankat saagar tar sakate hain.
shaury-veerya balvatee ahinsa hee jeevan-darshan ho
sanyam may jeevan ho | 4 |

sudhare vyakti, samaaj vyakti se, raashtr svayam sudharega
tulsi anuvrat sinhanaad saare jag mein prasarega
maanaveeya aachaar sanhita mein arpit tan-man ho
sanyam may jeevan ho | 5 |

GUJARATI

આણુવ્રત ગીત : ૧

સંયમમય જીવન હો,
નૈતિકતા કી સુર-સરિતા મેં જન-જન મન પાવન હો,
સંયમમય જીવન હો....

અપને સે અપના અનુશાસન, આણુવ્રત કી પરિભાષા,
વર્ણ, જાતિ યા સમ્પ્રદાય સે મુક્ત ધર્મ કી ભાષા,
છોટે-છોટે સંકલ્પોં સે માનસ-પરિવર્તન હો,
સંયમમય જીવન હો....

મૈત્રી-ભાવ હમારા સબસે પ્રતિદિન બઢતા જાએ,
સમતા, સહ-અસ્તિત્વ, સમન્વય-નીતિ સફળતા પાએ,
શુદ્ધ સાધ્ય કે લિએ નિયોજિત માત્ર શુદ્ધ સાધન હો,
સંયમમય જીવન હો...।

વિદ્યાર્થી યા શિક્ષક હો મજદૂર ઔર વ્યાપારી,
નાર હો નારી બનો નીતિમય જીવનચયાર્થ સારી,
કથાની-કરની કી સમાનતા મેં ગતિશીલ ચરણ હો,
સંયમમય જીવન હો....

પ્રભુ બનકર કે હી હમ પ્રભુ કી પૂજા કર સકતો હું,
પ્રામાણિક બનકર હી સંકટ સાગાર તાર સકતો હું,
શૌર્ય-વીર્ય-બલવતી અહિસા હી જીવન-દર્શન હો,
સંયમમય જીવન હો....

સુધરે વ્યક્તિ, સમાજ વ્યક્તિ સે, રાષ્ટ્ર સ્વયં સુધરેગા,
'તુલસી' આણુવ્રત-સિંહનાદ સારે જગ મેં પ્રસરેગા,
માનવીય આચાર-સંહિતા મેં અપ્રિત તન-મન હો,
સંયમમય જીવન હો....

Punjabi

ਅਣ੍ਣਵ੍ਰਤ ਗੀਤ

ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ । ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ॥

ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਸੁਰ-ਸਰਿਤਾ ਮੌਂ, ਜਨ-ਜਨ ਮਨ ਪਾਵਨ ਹੋ। ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ।

1. ਅਪਨੇ ਸੇ ਅਪਨਾ ਅਨੁਸਾਸਨ, ਅਣ੍ਣਵ੍ਰਤ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਣ, ਜਾਤਿ ਯਾ ਸਮਪ੍ਰਦਾਯ ਸੇ ਮੁਕਤ ਧਰਮ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਕਲਘੋਂ ਸੇ ਮਾਨਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ॥ ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ।
2. ਮੈਡ੍ਰੀ ਭਾਵ ਹਮਾਰਾ ਸਬਸੇ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਬਢਤਾ ਜਾਏ, ਸਮਤਾ-ਸਹ-ਅਸਤਿਤਵ, ਸਮਨਵਯ ਨੀਤਿ ਸਫਲਤਾ ਪਾਏ। ਸੁਦ ਸਾਦਯ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਯੋਜਿਤ, ਮਾਤਰ ਸੁਦ ਸਾਧਨ ਹੋ । ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ।
3. ਵਿਦਯਾਰਥੀ ਯਾ ਸਿਕਸਕ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਵਯਾਪਚੀ, ਨਰ ਹੋ ਨਾਰੀ, ਬਨੇ ਨੀਤਿਮਯ ਜੀਵਨਚਰਯਾ ਸਾਰੀ। ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮੌਂ ਗਤਿਸ਼ੀਲ ਚਰਣ ਹੋ । ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ।
4. ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕ ਬਨਕਰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਸਾਗਰ ਤਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਸੋਰਜ-ਵੀਰਜ-ਬਲਵਤੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ । ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ।
5. ਸੁਧਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਵਯਮ ਸੁਧਰੇਗਾ, 'ਤੁਲਸੀ' ਅਣ੍ਣਵ੍ਰਤ ਸਿੱਹਨਾਦ ਸਾਰੇ ਜਗ ਮੌਂ ਪਸਰੇਗਾ। ਮਾਨਵੀਯ ਆਚਾਰ ਸੱਹਿਤਾ ਮੌਂ ਅਰਪਿਤ ਤਨ-ਮਨ ਹੋ । ਸੰਯਮਮਯ ਜੀਵਨ ਹੋ ।

ਲਖਣ: ਚੈਤਜ ਪੁਰਖ ਜਗ ਜਾਏ

Malyalam

അണുവുർത്ത ശ്രീത

സംയമമയ ജീവന ഹോ | സംയമമയ ജീവന ഹോ ||

രേതികതാ കീ സുര-സരിതാ മേം, ജന-ജന മന പാവന ഹോ | സംയമമയ ജീവന ഹോ |

1. അപനേ സേ അപനാ അനുശാസന, അണുവുർത്ത കീ പരിഭാഷാ, വരും, ജാതിയാ സമുപ്പുർബാധ സേ മുകുത ധരുമ കീ ഭാഷാ
ചേരാടേ-ചേരാടേ സംകല്പംപോം സേ മാനസ പരിവര്ത്തന ഹോ || സംയമമയ ജീവന ഹോ |
2. മെമതുർന്നി ഭാവ ഹമാരാ സബ്രേ പുറതിഡിന ബഡ്റ്റതാ ജാപ്പി, സമതാ-സഹ-അസൃതിതുവ, സമന്വയ നീതി സഹലതാ പാപ്പി |
ശുദ്ധ്യ സാധ്യയ കേ ലിപ്പി നിയോജിത, മാതൃര ശുദ്ധ്യ സാധന ഹോ | സംയമമയ ജീവന ഹോ |
3. വിദ്യാരൂപ്യി യാ ശിക്ഷക ഹോ മജദുര ഓര വുഡാപാരി, നര ഹോ നാരി,
ബനേ നീതിമയ ജീവനചരുയാ സാരി |
കമനി-കരനി കീ സമാനതാ മേം ഗതിശീല ചരണ ഹോ | സംയമമയ ജീവന ഹോ |
4. പുറഭൂ ബനകര കേ ഹീ ഹമ പുറഭൂ കീ പുജാ കര സകതേ ഫെഹം, പുറാമാണിക
ബനകര ഹീ സംകട സാഗര തര സകതേ ഫെഹം |
ശോരൂപ-വിരൂപ-ബലവതി അഫിംസാ ഹീ ജീവന-ദരുമന ഹോ | സംയമമയ ജീവന ഹോ |
5. സുധരേ വുഡയകുതി, സമാജ വുഡയകുതി സേ, രാഷ്ട്രത്വര സുവയം സുധരേഗാ,
'തുലസീ' അണുവുർത്ത സിംഹനാഭ സാരേ ജഗ മേം പുറസരേഗാ |
മാനവീയ ആചാര സംഹിതാ മേം അരുപ്പിത തന-മന ഹോ | സംയമമയ ജീവന ഹോ |

ലയഃ ചെചതുയ പുരുഷ ജഗ ജാപ്പി

Tibetan

ଓଲିଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ

ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ-ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ଏହି କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

1. ଆମେ ଶିଖାଇ ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର ଗୀତିକାଳି ମହିନାଙ୍କିରେ ପାଞ୍ଚମି ଶତାବ୍ଦୀ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

2. କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୁଦ୍ଧ-ଶୁଦ୍ଧ-ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ |
ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତି ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

3. ଶୁଦ୍ଧ କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୁଦ୍ଧ-ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ |
ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

4. ଶୁଦ୍ଧ କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୁଦ୍ଧ କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ |
ଶୁଦ୍ଧ-ଶୁଦ୍ଧ-ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

5. ଶୁଦ୍ଧ-ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ |
ଶୁଦ୍ଧ-ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ |
‘କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି’ ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୁଦ୍ଧ-ଅନୁମତି ପାଇଲୁଛି ଆଜିର କାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ | ଶୀଘ୍ରକାଳ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷତି ନାହିଁ ||

ASSAMESE

অগুৱতৰ গীত (১)

সংযমময় জীৱন হো ।

নৈতিকতা কী সুৰ-সৱিতা মে জন-জন মন পাবন হো ।

সংযমময় জীৱন হো ।

অপনে সে অপনা অনুশাসন, অগুৱত কী পৰিভাষা
বৰ্ণ, জাতি যা সম্প্ৰদায় সে মুক্ত ধৰ্ম কী ভাষা
ছোটে-ছোটে সংকলন সে মানস-পৰিৱৰ্তন হো
সংযমময় জীৱন হো ।

মৈত্ৰী-ভাৰ হমাৰা সবসে প্ৰতিদিন বढ়তা জায়ে ।
সমতা, সহ-অস্তিত্ব, সমৰ্পণ-নীতি সফলতা পায়ে ।
শুন্দ সাধ্য কে লিয়ে নিয়োজিত মাত্ৰা শুন্দ সাধন হো ।
সংযমময় জীৱন হো ।

বিদ্যার্থী যা শিক্ষক হো মজনুৰ আৰু ব্যাপাৰী
নৰ হো নাৰী বনে নীতিময় জীৱনচৰ্যা সাৰী
কথনী-কৰনী কি সমানতা মে গতিশীল চৰণ হো
সংযমময় জীৱন হো ॥

প্ৰভু বনকৰ কে হী হম প্ৰভু কি পৃজা কৰ সকতে হে ।
প্ৰামাণিক বনকৰ হি সংকট সাগৰ তৰ সকতে হে
শৌৰ-বীৰ-বলৱতী অহিংসা হি জীৱন-দৰ্শন হো ।
সংযমময় জীৱন হো ।

সুধৰে ব্যক্তি, সমাজ ব্যক্তি সে, বাষ্টু স্বৱং সুধৰেগা
'তুলসী' অগুৱত-সিংহনাদ সাৰে জগ মে প্ৰসৰেগা
মানবীয় আচাৰ-সংহিতা মে অৰ্পিত তন-অন হো
সংযমময় জীৱন হো ।

TAMIL

அனுவரத-கீத்
ஆசார்ய துளசி

சய்யம்மய ஜீவன ஹோ.
நெந்திகதா கீ ஸார் ஸரிதா மே
ஜன ஜன மன பாவன ஹோ।
சய்யம்மய ஜீவன ஹோ ॥

(1)
அபநே ஸே அபனா அனுசாசன
அனுவரத கீ பரிபாஷா
வர்ண, ஜாதி யா ஸம்ப்ரதாயசே
முக்த தர்ம கீ பாஷா
சோடே- சோடே ஸங்கல்பேர் ஸே மானச பரிவர்தநன வோ
சய்யம்மய ஜீவன ஹோ ॥

(2)
மைத்ரீ-பாவ ஹமாரா ஸப்ஸே
பிரதி அதன் பட்ஜாதாஜாயே
சமதா, ஸஹ-அஸ்தித்வ,
ஸமந்வய-நீதி ஸபலதா பாயே
ஷாத்த ஸாத்ய கேலியே நியோஜித மாத்ர ஷாத்த, சாதன ஹோ
சய்யம்மய
ஜீவன ஹோ ॥

(3)
வித்யார்த்தீ யா ஷிக்ஷக ஹோ மஜதூர ஓளர் வயாபாரீ
நர ஹோ நாரீ பநே நீதிமய
ஜீவநசர்யா ஸாரீ
கதநீ-கரநீ கீ ஸமாநதா மே கதிஷீல சரண
ஹோ
சய்யம்மய ஜீவன ஹோ ॥

(4)
ப்ரபு பன கர்கேஹி ஹம ப்ர்புகீ பூஜா கர ஸகதே வை
ப்ராமாணிக பன்ஹீகர்ஹி ஸங்கட
ஸாகர தர ஸகதே ஹே
ஷெளர்ய-வீர்ய-பலவதீ அஹிம்ஸா ஹி சய்யுத தர்ஷன ஹோ
சய்யம்மய ஜீவன ஹோ ॥

(5)
ஷாத்ரேவ்யக்தி, ஸமாஜ வ்யக்தி ஸே, ராஷ்ட்ர ஸ்வயம் ஷாத்ரேகா
துளசி அனுவரத-
ஸ்லிமஹ நாத ஸாரே ஜக மே பஸரேகா மானவிய ஆசார ஸம்ஹிதாமே
அர்பித அதன் மன ஹோ
சய்யம்மய ஜீவன ஹோ ॥"
நெந்திகதா கீ சர சரிதா மே
ஜன ஜன மன பாவனஹோ
சய்யம்மய்ஜீவன ஹோ

KANNAD

ಅಷ್ಟವರ್ತೀಗಿತ್ತಾ

ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ ಹೋ

ನ್ಯಾತಿಕತಾ ಕೀ ಸುರ್ ನರಿತ ಮ್ಯಾ

ಜನ ಜನ ಮನ ವಾವನ ಹೋ

||ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ್ ಹೋ||

ಅದನೇ ನೆ ಅದನಾ ಅನುಶಾಸನ್ ಅಷ್ಟವರ್ತೀ ಕೀ ಪರಿಭಾಷಾ

ವರ್ಣ ಜಾತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಧರ್ಮ ಕೀ ಭಾಷಾ

ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ ಸಂಕಲ್ಪನೆ, ಮಾನಸ ಪರಿದರ್ಶನ ಹೋ

||ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ್ ಹೋ||

ಮ್ಯಾತ್ರಿ ಭಾವ ಹಮಾರಾ ಸಬನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾ ಜಾಹೇ

ನಮತ, ಸಹ-ಆಸ್ತಿತ್ವ, ಸಮನ್ವಯ್, ನೀತಿ ಸಫಲತಾ ವಾಹೇ

ಶುದ್ಧ ನಾಧ್ಯಕೆ ಲಿಹೇ ನಿಯೋಜಿತ ಮಾತ್ರು ಶುದ್ಧ ನಾಧನ್ ಹೋ

||ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ್ ಹೋ||

ವಿಧ್ಯಾತ್ರಿ ಹೋಯಾ ಶೀಕ್ತಕ ಹೋ ಮಜದೂರ ಓರ್ ವ್ಯಾವಾರೀ

ನರ ಹೋ ನಾರಿ, ಬನೇ ನೀತಿಮಯಿ ಜೀವನ ಜಾರಿಯೋ ನಾರಿ

ಕಥನೀ-ಕರನೀ ಕೀ ಸಮಾನತಾ ಮೇ ಗತಿಶೀಲ ಚರಣ ಹೋ

||ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ್ ಹೋ||

ಪ್ರಭು ಬನಕರ ಕೇ ಈ ಹರ್ ಪ್ರಭು ಕೀ ಪೂಜಾ ಕರನಹತೆ ಹೇ

ಉಮಾಣಿಕ ಬನಕರ ಹೀ ಸಂಕಟ - ನಾಗರ ತರ ಸರತೇ ಹೇ

ಶೌಯ್ ವಿಯ್ ಬಲವತೀ ಅಹಿಂಸಾ ಹೀ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಹೋ

||ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ್ ಹೋ||

ಸುದರೆ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಜ ವೃತ್ತಿನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸುಧರೆಗಾ

ತುಲಸಿ ಅಷ್ಟವರ್ತೀ ಸಿಂಹನಾದ ನಾರೆ ಜಗತು ವನರೆಗಾ

ಮಾನವೀಯ ಆಜಾರ-ಸಂಹಿತಾ ಮೇ ಅರ್ಹತ ತನ-ಮನ ಹೋ

||ನಂಯಮ ಮಯಿ ಜೀವನ್ ಹೋ||

Orriya

ଅଣୁତ୍ର ଜୀବିତ

ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ । ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ॥

ନେବିକତା କୁ ସୁର-ସରିତା ମେ, ଜନ-ଜନ ମନ ପାଖନ ହୋ । ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ।

1. ଅପଳେ ସେ ଅପଳା ଅନୁଶାସନ, ଅଣୁତ୍ର କୁ ପରିଭାଷା, ଝର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି ଯା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ମୁକ୍ତ ଧର୍ମ କୁ ଭାଷା ।

ଛୋଟେ-ଛୋଟେ ସଂକଞ୍ଚାଂ ସେ ମାନସ ପରିଷ୍ଠର୍ତ୍ତନ ହୋ ॥ ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ।

2. ମୌତ୍ରୀ ଭାଷା ହମାରା ସବସେ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ତା ଜାଏ, ସମତା-ସହ-ଅନ୍ତିର୍ମିଳିତ, ସମବ୍ୟ ନୀତି ସଫଳତା ପାଏ ।

ଶୁଦ୍ଧ ପାଖ କେ ଲିଖ ନିଯୋକିତ, ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ପାଧନ ହୋ । ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ।

3. ଉତ୍ସାର୍ଥୀ ଯା ଶିକ୍ଷକ ହୋ ମଳଦୂର ଓର ଝୁପାରୀ, ନର ହୋ ନାରୀ, ବନେ ନୀତିମାୟ ଜୀଖନର୍ଥୀ ଯାରୀ ।

କଥନୀ-କରନୀ କୁ ସମାନତା ମେ ଗତିଶୀଳ ଚରଣ ହୋ । ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ।

4. ପ୍ରଭୁ ବନକର କେ ହୀ ହମ ପ୍ରଭୁ କୁ ପୂଜା କର ସକତେ ହେଁ, ପ୍ରାମାଣିକ ବନକର ହୀ ସଂକଟ ସାଗର ତର ସକତେ ହେଁ ।

ଶୋର୍ଯ୍ୟ-ଝୀର୍ଯ୍ୟ-ବଲାଙ୍ଗତୀ ଅହିଂସା ହୀ ଜୀଖନ-ଦର୍ଶନ ହୋ । ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ।

5. ପୁଧରେ ଝୁକ୍ତି, ସମାଜ ଝୁକ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଵଧେନୀ ପୁଧରେଗା, 'ତୁଳପୀ' ଅଣୁତ୍ର ସିଂହନାଦ ସାରେ ଜଗ ମେ ପୁରୁଷରେଗା । ମାନ୍ତ୍ରୀୟ ଆଚାର ସଂହିତା ମେ ଅପ୍ରତିକରିତ ଭନ-ମନ ହୋ । ସଂୟମମାୟ ଜୀଖନ ହୋ ।

ଲାପ୍ୟୀ ଚେତ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଜଗ ଜାଏ

సంయమయంయ జీవన హో | సంయమయంయ జీవన హో ||

నైతికతా కే సుర-సరితా మేం, జన-జన యన పావన హో | సంయమయంయ జీవన హో |

1. అపనే సే అపనా అనుశాసన, అణువ్యత కే పరిభూషా, వర్ధ, జాతి యూ సమాగ్దాయ సే ముక్త ధర్మ కే భూషా।
ఛోటే-ఛోటే సంకలోపం సే యానస పరివర్తన హో || సంయమయంయ జీవన హో |
2. ఘైత్రీ భావ పూచూరా సబనే ప్రతిదిన బధితా జాపీ, సమతా-సహ-అస్తిత్వ, సమన్వయ నీతి సఫలతా పాపీ |
శుద్ధ సాధ్య కే లిపి నియోజిత, యాత్ర శుద్ధ సాధన హో | సంయమయంయ జీవన హో |
3. విద్యార్థి యూ శిక్షక హో మజదూర బెర ఎయిపారీ, నర హో నారీ, బనే నీతిమంయ జీవనచర్య సారీ |
కథనీ-కరనీ కే సమానతా మేం గతిశీల చరణ హో | సంయమయంయ జీవన హో |
4. ప్రభు బనకర కే హీ పూచు ప్రభు కే పూజా కర సకతే ప్లాం, ప్రాయణిక బనకర హీ సంకట సాగర తర సకతే ప్లాం |
శోర్య-వీర్య-బలపతే అమీంసా హీ జీవన-దర్శన హో | సంయమయంయ జీవన హో |
5. సుధరే వ్యక్తి, సమాజ వ్యక్తి సే, రాష్ట్ర స్వయం సుధరేగా, 'తులసీ' అణువ్యత సింహాశ సారే జగ మేం ప్రసరేగా |
యానవీంయ ఆచార సంహితా మేం అరివీత తన-యన హో | సంయమయంయ జీవన హో |

లంయః చైత్య పురుష జగ జాపీ

سیم می جیون ہو، سیم می جیون ہو،

نیتکتا کی سور سریتا میں، جن جن من پاؤں ہو، سیم می جیون ہو،

(1) اپنے سے اپنا انوشان، اڑورت کی پری بحاشا، ورڑ، جاتی یا سپردایی سے گلت دھرم کی بحاشا
چھوٹے چھوٹے سنکلپوں سے مانس پر یور تن ہو، سیم می جیون ہو،

(2) میتری بھاؤ ہمارا سب سے پرتی دن بڑھتا جائے، سمتا سہ استثنو، سمنوئی نتی سفلتا پائیں
شُدھ سادھی کے لیے نیوجت، ما تر شُدھ سادھن ہو، سیم می جیون ہو،

(3) ودھیار تھی یا شنگ کہ ہو مزدور اور ویاپاری، نر ہو یا ناری، بنے نیمت جیون چریا ساری
گھنی کرنی کی سماںتا میں گتی سیل چرن ہو، سیم می جیون ہو،

(4) پر بھو بنکر کے ہی ہم پر بھو کی پوچا کر سکتے ہیں، پر مانک بنکر ہی سنکٹ ساگر تر سکتے ہیں
آج اہنسا، سوری وریا، سیوکت جیون در شنک ہو، سیم می جیون ہو،

(5) سدھرے ویکتی، سماج ویکتی سے، راشٹر سوئی سدھرے گا، تلسی انور تھ سہناد سارے جگ میں
پر سرے گا
مانوی آچار سنگیتا میں آپرت تن من ہو، سیم می جیون ہو،

لی: چیتی پرس جگ جائے

BENGALI

অণুব্রত গীত

সংযমময় জীবন হো ।

নেতৃত্বকা কী সুর-সরিতা মেঁ জন-জন মন পাবন হো ।

সংযমময় জীবন হো ॥

অপনে সে অপনা অনুশাসন, অণুব্রত কী পরিভাষা ।

বর্ণ, জাতি যা সম্প্রদায় সে, মুক্ত ধর্ম কী ভাষা ।

ছোটে-ছোটে সংকল্পে সে মানস-পরিবর্তন হো ।

সংযমময় জীবন হো ॥১॥

মেত্রী-ভাব হমারা সবসে, প্রতিদিন বড়তা জাএ ।

সমতা, সহ-অস্তিত্ব, সমন্বয়-নীতি সফলতা পাএ ।

শুন্দ সাধ্য কে লিএ নিয়োজিত মাত্র শুন্দ সাধন হো ।

সংযমময় জীবন হো ॥২॥

বিদ্যার্থী যা শিক্ষক হো. মজদুর ওর ব্যাপারী ।

নর হো নারী বনে নীতিময়, জীবনচর্যা সারী ।

কথনী-করনী কী সমানতা মেঁ গতিশীল চরণ হো ।

সংযমময় জীবন হো ॥৩॥

প্রভু বনকর কে হী হম, প্রভু কী পূজা কর সকতে হৈঁ ।

প্রামাণিক বনকর হী, সংকট সাগর তর সকতে হৈঁ ।

শৌর্য-বীর্য-বলবতী অহিংসা হী জীবন-দর্শন হো ।

সংযমময় জীবন হো ॥৪॥

সুধরে ব্যক্তি. সমাজ ব্যক্তি সে, রাষ্ট্র স্বয়ং সুধরেগা ।

তুলসী অণুব্রত-সিংহনাদ, সারে জগ মেঁ প্রসরেগা ।

মানবীয় আচার-সংহিতা মেঁ অপূর্ত তন-মন হো ।

সংযমময় জীবন হো ॥৫॥